MUNJAL SHOWALTD.

Regd. Office & Works: 9-11, Maruti Industrial Area, Gurgaon - 122 015 (Haryana) INDIA

E-mail: msladmin@munjalshowa.net Website: www.munjalshowa.net Corporate Identity Number: L34101HR1985PLC020934, Pan No.: AAACM0070D

Ph.: 0124-4783000, 2341001 Fax: 0124-2341359

MSL/SECT/17/

July 31, 2017

The D.G.M. (Listing)
Corporate Relation Department
BSE Ltd
1st Floor, P.J. Towers
New Trading Ring, Dalal Street
Mumbai-400 001
Security Code: 520043

The Asst. Vice President
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block-G
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai – 400 051
Security Code: MUNJALSHOW

Sub: Notice of Annual General Meeting, E-Voting Information and Book Closure.

Dear Sir,

We are enclosing copies of newspaper clippings of the Notice of 32nd Annual General Meeting of the Company, E-Voting information and Book Closure, published in newspaper today. The advertisement is also available on the website of the company i.e. www.munjalshowa.net.

This is for your information and record.

Thanking You.

Yours Faithfully,

For MUNJAL SHOWA LIMITED*

(SAURABH AGRAWAL)

Company Secretary

ELIXIR CAPITAL LIMITED

rry intown as Axis Cepital Markets (India) Limited) CIN: L67190MH11994PLC083361 Registered Office: 58, Mittal Chambers, 228, Narfman Point, Mumbal - 400021 dm@elbdrequities.com Tel: 022 - 6115 1919

NOTICE

The Twenty Third (23rd) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, 26th August, 2017 at 10.00 a.m. at the Ashok Birla Hall, Indian Morchants' Chamber, Churchgate, Mumbal – 400 020 to transact the business in terms of Notice of 23rd AGM.

Votice pursuant to Section 91 of the Compar Act, 2013 is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 19th August, 2017 to Saturday, 26th August, 2017 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and payment of dividend on the Equity Shares of the Company for the year ended 31st March, 2017. The dividend as recommended by the Board. If declared at the meeting, will be paid on or before 26th September, 2017. The Company's communication relating to e-voting, inter alia, containing user ID and password alor with the copy of the Notice of 23rd AGM and Annual Report for the financial year ended 31st March, 2017 is being posted to the Members

The e-voting period begins from Wednesday 23rd August, 2017 at 9.00 a.m. and ends on Friday, 25th August, 2017 at 5.00 p.m. During this period Shareholders of the Compan holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date Saturday, 19th August, 2017 may cast their

By Order of the Board
For ELIXIR CAPITAL LIMITED



TENDER NOTICE Request for qualification are invited for selection of Independent Externa selection of Independent External Monitors (IEMs) for adoption and implementation of Integrity Pact in procurements of the Bank. Detailed notice may be downloaded from Bank's website www.pabindla.com. Further changes related to said notice shall be posted on Bank's website only. Contact person: Sh. Manoj Kumar – AGM (IT Phone: +91-9811728292.

General Manager -IT



July 28, 2017

MAHANADI COALFIELDS LIMITED (A Subsidiary of Coal India Limited) JAGRUTI VIHAR, BURLA - 768020, DIST. SAMPBALPUR, ODISHA Tel Phone (EPABX) - 0663-2542461 to 469 Website: www.mahanadicoal.in

GENERAL TENDER NOTICE FOR e-PROCUREMENT ahanadi Coalfields Limited(MCL) is inviting its Tenders having estimated value Rs.2.00 Lakhs and above related to WORKS (Civil works, Electrical & Mechanica works etc.), SERVICES (Coal transportation, coal loading, extraction of coal by Surfac Miner, Overburden removal etc.) and GOODS (Procurement of equipments, spares consumables, medicines etc. and Hiring of Vehicles) through e-Procurement mode However all the Limited Tenders pertaining to procurement of Goods irrespective o value will be published in the e-Procurement portal. Tender Notices can be viewed o the e-Procurement portal of MCL (https://mcltenders.nic.in) as well as on the Centra Public Procurement portal of Govt. of India (http://eprocure.gov.in). Bids are to be submitted ONLINE on the above e- Procurement portal of MCL by enrolled Bidders EMD can also be submitted online. Enrollment of Bidders on the eProcurement porta of MCL is free of cost and can be done online by the bidders themselves, having valid Digital Signature Certificate (DSC). Bidders are requested to regularly visit abov Procurement portal of MCL for enrollment and participation in Tenders. [Contact letails: Tel.-0663-2542264/2542230/ 2542695 (available during office hours only email- hlp-eproc.mcl@nic.in]



TD POWER SYSTEMS LIMITED

CIN: L31103KA1999PLC025071. Registered Office & Factory: # 27, 28 & 29, KIADB Industrial Area, Dabaspet Nelamangala Taluk, Bengaluru Rural District, Bengaluru - 562 111 Ph: + 91 80 22995700, Fax: + 91 80 7734439

E mail: investor.relations@TDPS.co.in, tdps@tdps.co.in Website: www.tdps.co.in

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the company will be held on Thursday, August 10, 2017 at Bangalore inter alia, to consider amongst other subjects, the Unaudited Financial Results of the company for the Quarter ended June 30, 2017.

This Notice is also available at investor relations section of the company's website i.e. www.tdps.co.in and corporate announcement section of www.bseindia.com and www.nseindia.com

For TD POWER SYSTEMS LIMITED

Bangalore

N. Srivatsa Company Secretary

MUNJAL SHOWA LIMITED

CIN: L34101HR1985PLC020934

Registered Office & Works: 9-11, Maruti Industrial Area, Sector-18, Gurugram -122015 (Haryana); Tel.:+91-124-4783000; Fax:+91-124-2341359 Email: cs@munjalshowa.net; Website: http://www.munjalshowa.net NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 32nd Annual General Meeting ('AGM') of the members of Munjal Showa Limited ('Company') will be held on Thursday, 24th August 2017 at 11:00 AM at the registered office of the Company situated at 9-11, Maruti Industrial Area, Sector-18, Gurugram- 122015 to transact the business as mentioned in the Notice of AGM dated 19th May 2017.

The Company has completed the dispatch of Annual Report for the year ended on 31st March, 2017 along with the notice of AGM and the remote e-voting procedure on 29th July 2017 to all the Members of the Company

a) at their registered addresses via permitted mode and

b) electronically whose email addresses are registered with the depository participants (DP) The said documents are also available on the Company's website www.munjalshowa.net. In compliance with the provisions of the Section 108 and other applicable provisions if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and applicable Regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members as on the cut-off date (17th August 2017), the facility to cast their vote by electronic means on all the business set forth in the Notice of AGM, through the remote e-voting platform of Central Depository Services Limited (CDSL).

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made theraunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the register of members and the share transfer books of the Company will remain closed from Saturday, 12th August 2017 to Thursday, 24th August 2017 (both days inclusive) for the purpose of 32nd AGM and for determining the entitlement of the members for dividend (if declared) for the financial year 2016-17. The final dividend will be paid to those members / beneficial owners whose names appear in the register of members/ depository records as at closing hours of business on Friday, 11th August, 2017.

All the Members are Informed that the: the business as set forth in the AGM notice may be transacted through voting by

- electronic means. the remote e-voting shall commence on Monday, 21st August 2017 at 9.00 a.m. and
- shall end on Wednesday, 23rd August 2017 at 5.00 p.m. iii. cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means and at the AGM
- is 17th August 2017
- v. Any person who acquires shares and becomes a member of the Company after the eatch of the Annual Report and Notice of AGM and holding shares as of the cutoff date i.e. 17th August 2017, may obtain the User ID and password by sending a request at ca@munjalshowa.net.
- Please note that (a) Remote e-voting shall not be allowed beyond Wednesday August 23, 2017 at 5.00 p.m. and once the vote on a resolution is cast by a member he/ she shall not be allowed to change it subsequently; (b) The facility for voting through ballot/ polling paper shall also be made available at the AGM for the members present at the AGM; (c) Members who have cast their vote by Remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. (d) A Member, whose name appears in the register of members maintained by the Registrar and Share Transfer Agent or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. August 17, 2017 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot/ polling paper.
- Notice of the AGM is available on the website of the Company at www.munjalsho net and on the website of CDSL at https://www.cdslindla.com
- vii. In case of any queries regarding remote e-voting, please call 18002005533 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindle.com or write to Mr. Rakesh Dalvi, Deputy ager, Central Depository Services Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 16th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001.

Place : Gurugram

Date : July 29, 2017

By the order of the Board of Directors

(SAURABH AGRAWAL) Company Secretary

ACS 36163



Making growth fashionable

Registered Office: Kewal Kiran Estate 460/7, I.B. Patel Road, Goregaon (E), Mumbai – 400 063 Corporate Identification Number: L18101MH1992PLC065136 Email ID: contact@kewalkiran.com, Website: kewalkiran.com, Phone: 022 - 26814400, Fax: 022- 26814410

STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2017

(Rs. In Lakhs Year Ende Quarter Ended 30-Jun-17 31-Mar-17 30-Jun-16 31-Mar-17 **Particulars** Audited Unaudited Unaudited Unaudited Revenue from Operations 12,409 10,659 b. Other Incom Total Revenue (I + II) 8,638 12,838 11,112 49,456 Expenses: Cost of materials consumed 17.782 4,405 4.316 5.089 b. Purchase of stock in trade 437 461 1,626 Change in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade (1,756)(1,244)788 560 d. Excise duty on sales 227 1,059 e. Employee benefit expenses 1,541 1,310 1,396 5,921 70 327 Finance cost g. Depreciation and amortisation expenses 129 132 101 476 Manufacturing and operating expenses 1,082 942 1,325 4,777 728 Administrative and other expenses 914 523 2.952 Selling and distribution expenses 671 499 928 2.919 Total Expenses 7,499 9,495 8,877 38,628 Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III - IV) 1.139 3,343 2,235 10,828 **Exceptional Items** Profit before extraordinary items and tax (V-VI) 1,139 3,343 2,235 10,828 Extraordinary items Profit before tax (VII - VIII) 1,139 3,343 2,235 10,828 Tax Expense: 3,212 a Current tax 1.106 621 193 (135) Deferred tax 123 65 162 (Excess)/Short provision for taxes of earlier years (6) (5) 824 1,549 Profit for the period (IX - X) 7,459 2,379 Other Comprehensive Income (OCI) A. Items that will not be reclassified subsequently to emeasurement [gain / (loss)] of net defined benefit liability (35)Income tax on above (2) (4) 11 12 Effect [gain / (loss)] of measuring equity instruments at fair value through OCI (21) (4)(31)0.14 Income tax on above B. Items that will be reclassified subsequently to profit or loss Income tax relating to items that will be reclassified subsequently to profit or loss **Total of Other Comprehensive Income** (23)(66)Total Comprehensive income for the period (XI+XII) 2,385 1.483 7,436 XIV Paid up Equity Capital (Face Value of Rs. 10/- each) 1,233 1,233 1,233 1,233 Reserves excluding revaluation reserves (refer note 3) 36,219 XVI Earnings Per Share (EPS) in Rs (Not Annualized) 6.68 12.57 60.52 a. Basic 19.30

b. Diluted

1 The above audited results for the quarter ended 30th June 2017 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 28th July, 2017.

6.68

19.30

60.52

The above results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 [Ind AS] prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013. Beginning 1st April 2017, the Company has for the first time adopted Ind AS. The impact of transition has been provided in Other Equity (Opening Reserves as per Previous Generally Accepted Accounting Principles (Previous GAAP)) as at 1st April 2016. The figures for the previous period have been restated, regrouped and reclassified wherever required to comply with the requirement of Ind AS. Further, in accordance with Ind AS 101, First-Time Adoption of Indian Accounting Standards, the Company has presented a reconciliation of profit as per Previous GAAP and Ind AS:

Reconciliation of profit between Previous GAAP and Ind AS Quarter Ended Year Ended **Nature of Adjustments** 31-Mar-17 30-Jun-16 31-Mar-17 **Profit as per Previous GAAP** 1,260 8,528 3,391 Add/(less): Adjustments in statement of profit and loss Effects of measuring investments at fair value through profit and loss (refer note below) (1,115)Deferred tax impact on above (53)Effect of measuring equity investments at fair value through OCI Current tax impact on above reclassified to OCI (11)(12)2.379 Net Profit before OCI as per Ind AS 1.549 7.459 Other Comprehensive Income (net of tax impact) (66)(23)Total Comprehensive Income as per Ind AS 2.384 1,483 7,436

Note - Under previous GAAP, investments were accounted at cost less diminution. Under Ind AS, the Company has valued investments (other than equity instruments and investments in joint venture) at fair value through Statement of Profit and Loss. Impact of fair value changes on date of transition including tax impact thereon is recognized in other equity (opening reserves) as at 1st April 2016. Changes in fair value thereafter are recognised in Statement of Profit and Loss and impact of actual realized gain as per Previous GAAP is reversed.

3 Other Equity (Reserves) as per serial no. XV As at 31-Mar-17 Nature of Adjustments/Reconciliation as under Other Equity (Reserves) as per previous GAAP 34,573 **Adjustments**: 1.714 Effect of measuring investments at fair value Deferred tax impact on above (68)Other Equity (Reserves) as per Ind AS 36,219

4 The financial results for the quarter ended 30th June 2016, quarter ended 31st March 2017, and year ended 31st March 2017 including the reconciliation of profit for above quarters / year and reconciliation of reserves as at 31st March 2017 with reported figures under previous GAAP have not been audited. However, the management has exercised due diligence to ensure that the results provide a true and fair view of the Company's affairs.

5 In view of Company's nature of business, revenue is unevenly spread through out the year hence result for the quarter is not representative for revenue and profit of the entire year. Further sales for the current quarter ended 30th June 2017, has declined as compared to corresponding quarter in the previous year, mainly on account of trade de-stocking due to transition into GST.

6 Information on dividends Quarter Ended Year Ended **Particulars** 30-Jun-17 | 31-Mar-17 | 30-Jun-16 | 31-Mar-17 Dividend per share (Face value Rs.10/- each) Interim dividend 8.50 Final dividend

The Company is engaged in the business of manufacturing and marketing of Apparels & trading of Lifestyle Accessories/Products. The Company is also generating power from Wind Turbine Generator. The power generated from the same is predominantly used for captive consumption. However, the operation of Wind Turbine Segment is within the threshold limit stipulated under IND AS 108 "Operating Segments" and hence it does not require disclosure as a separate reportable segment.

	d Capital Employed	(Rs. in Lak				
	Particulars	30-Jun-17				
	rai ticulai s	the desired and the desired	Unaudited	the builded and billion bed	territori (Terlicita) eratidiki (Ari	
1	Segment Revenue :					
	(Net Sales/Income from Operation)					
	- Apparel & Lifestyle Accessories/Products	8,001	12,409	10,659	47,705	
	- Other/Reconciling Item	20	7	20	63	
	- Less: Inter Segment Revenue	(20)	(7)	(20)	(58)	
	Total	8,001	12,409	10,659	47,709	
2	Segment Result :					
	- Apparel & Lifestyle Accessories/Products	575	2,998	1,847	9,386	
	- Other/Reconciling Item	15	1	15	41	
	Total	590	2,999	1,862	9,427	
	Less : Finance cost	(82)	(64)	(60)	(289)	
	Add: Other unallocable income net of					
	unallocable expenditure	631	409	431	1,690	
	Profit before Tax	1,139	3,343	2,235	10,828	
3	Segment Assets			400	144 T	
	- Apparel & Lifestyle Accessories/Products	24,548	23,987	27,187	23,987	
	- Other/Reconciling Item	139	139	148	139	
	- Corporate (Unallocated)	28,109	27,189	21,434	27,189	
	Total	52,795	51,315	48,769	51,315	
4	Segment Liabilities					
	- Apparel & Lifestyle Accessories/Products	10,118	9,600	9,864	9,600	
	- Other/Reconciling Item	: = :	V=0	1	·-	
	- Corporate (Unallocated)	5,457	4,263	4,589	4,263	
	Total	15,575	13,863	14,453	13,863	
5	Capital Employed :					
	(Segment Assets – Segment Liabilities)					
	- Apparel & Lifestyle Accessories/Products	14,429	14,387	17,323	14,387	
	- Other/Reconciling Item	139	139	147	139	
	- Corporate (Unallocated)*	22,651	22,926	16,846	22,926	
	Total	37,219	37,452	34,316	37,452	

Includes Cash & Cash Equivalents, Deposits offered as security, Accrued Interest, investments measured at fair value in units of mutual fund (including earmarked against business progressive fund) of Rs.22,033 lakhs (30th June 2016 Rs 16,463 lakhs; 31st March 2017 Rs.22,544 Lakhs) and is net of borrowings.

	Statement of Assets & Liabilities	(Rs.	in Lakhs
	New 1941	As at	As at
	Particulars	and the same of the same of	31-Mar-17
L	A # 500 - 500	Audited	Unaudited
١.,	ASSETS		
1)	Segretary Designation Consumptions of		
	a) Property, Plant and Equipment	6,568	6,299
	b) Capital Work in Progress	995	725
	c) Investment Property	104	106
	d) Other Intangible Assets	43	50
ı	e) Intangible Assets under Development	9	3
ı	f) Financial Assets		
	i) Investments	13,737	12,929
ı	ii) Loans	-	-
ı	iii) Other Financial Assets	199	190
ı	g) Deferred Tax Assets(Net)	-	-
ı	h) Other Non-Current Assets	766	533
ı	The Contract Contract of the Contract of the Contract of Contract	22,422	20,835
2)	Current Assets	1900 1 100 100 100 100 100 100 100 100 1	1000
	a) Inventories	7,931	5,126
ı	b) Financial Assets	.,	
ı	i) Investments	7,374	7,583
ı	ii) Trade Receivables	7,817	10,615
ı	iii) Cash & Cash Equivalents	6,406	100000000000000000000000000000000000000
ı		2005/00/2005	6,556
	iv) Bank balances (other than ill above)	81	88
ı	v) Loans	-	-
ı	vi) Other Financial Assets	157	133
ı	c) Current Tax Assets (Net)	12000	757-007
ı	d) Other Current Assets	605	377
ı		30,372	30,479
	TOTAL ASSETS	52,794	51,314
	EQUITY & LIABILITIES		
	Equity		
ı	a) Equity Share Capital	1,233	1,233
ı	b) Other Equity	100000000000000000000000000000000000000	20 240
		35,987	36,219
		35,987 37,219	37,452
	Liabilities	-	0.0000000000000000000000000000000000000
1)		-	0.0000000000000000000000000000000000000
1)	Liabilities	-	0.0000000000000000000000000000000000000
1)	Liabilities Non-Current Liabilities a) Financial Liabilities	37,219	0.0000000000000000000000000000000000000
1)	Liabilities Non-Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Other financial liabilities	-	0.0000000000000000000000000000000000000
1)	Liabilities Non-Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Other financial liabilities ii) Other Long-Term Liabilities	37,219	37,452
1)	Liabilities Non-Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Other financial liabilities ii) Other Long-Term Liabilities b) Provisions	37,219 - - 7	37,452
1)	Liabilities Non-Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Other financial liabilities ii) Other Long-Term Liabilities b) Provisions c) Deferred Tax Liability	37,219 - - 7 235	37,452
1)	Liabilities Non-Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Other financial liabilities ii) Other Long-Term Liabilities b) Provisions	37,219 - - 7 235 184	37,452 - - 8 113
	Liabilities Non-Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Other financial liabilities ii) Other Long-Term Liabilities b) Provisions c) Deferred Tax Liability d) Other non - current liabilities	37,219 - - 7 235	37,452
1)	Liabilities Non-Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Other financial liabilities ii) Other Long-Term Liabilities b) Provisions c) Deferred Tax Liability d) Other non - current liabilities Current Liabilities	37,219 - - 7 235 184	37,452 - - 8 113
7	Liabilities Non-Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Other financial liabilities ii) Other Long-Term Liabilities b) Provisions c) Deferred Tax Liability d) Other non - current liabilities Current Liabilities a) Financial Liabilities	37,219 - 7 235 184 427	37,452 - - 8 113 - 121
7	Liabilities Non-Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Other financial liabilities ii) Other Long-Term Liabilities b) Provisions c) Deferred Tax Liability d) Other non - current liabilities Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Borrowings	37,219 - - 7 235 184	37,452 - - 8 113
	Liabilities Non-Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Other financial liabilities ii) Other Long-Term Liabilities b) Provisions c) Deferred Tax Llability d) Other non - current liabilities Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Borrowings ii) Trade Payables	37,219 - - 7 235 184 427 5,119	37,452 - - 8 113 - 121
7	Liabilities Non-Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Other financial liabilities ii) Other Long-Term Liabilities b) Provisions c) Deferred Tax Liability d) Other non - current liabilities Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Borrowings ii) Trade Payables - Due to Micro and Small Enterprises	37,219 - - 7 235 184 427 5,119	37,452 - - 8 113 - 121 4,051
7	Liabilities Non-Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Other financial liabilities ii) Other Long-Term Liabilities b) Provisions c) Deferred Tax Liability d) Other non - current liabilities Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Borrowings ii) Trade Payables - Due to Micro and Small Enterprises - Due to Others	37,219 - - 7 235 184 427 5,119 50 4,742	37,452 - - 8 113 - 121 4,051 21 3,926
	Liabilities Non-Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Other financial liabilities ii) Other Long-Term Liabilities b) Provisions c) Deferred Tax Liability d) Other non - current liabilities Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Borrowings ii) Trade Payables - Due to Micro and Small Enterprises - Due to Others iii) Other financial liabilities	37,219 7 235 184 427 5,119 50 4,742 854	37,452 - - 8 113 - 121 4,051
7	Liabilities Non-Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Other financial liabilities ii) Other Long-Term Liabilities b) Provisions c) Deferred Tax Liability d) Other non - current liabilities Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Borrowings ii) Trade Payables - Due to Micro and Small Enterprises - Due to Others	37,219 - - 7 235 184 427 5,119 50 4,742	37,452 - - 8 113 - 121 4,051 21 3,926
	Liabilities Non-Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Other financial liabilities ii) Other Long-Term Liabilities b) Provisions c) Deferred Tax Liability d) Other non - current liabilities Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Borrowings ii) Trade Payables - Due to Micro and Small Enterprises - Due to Others iii) Other financial liabilities	37,219 7 235 184 427 5,119 50 4,742 854	37,452 - - 8 113 - 121 4,051 21 3,926 956
7	Liabilities Non-Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Other financial liabilities ii) Other Long-Term Liabilities b) Provisions c) Deferred Tax Liability d) Other non - current liabilities Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Borrowings ii) Trade Payables - Due to Micro and Small Enterprises - Due to Others iii) Other financial liabilities b) Other Current Liabilities	37,219 7 235 184 427 5,119 50 4,742 854 2,525	37,452
	Liabilities Non-Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Other financial liabilities ii) Other Long-Term Liabilities b) Provisions c) Deferred Tax Liability d) Other non - current liabilities Current Liabilities a) Financial Liabilities i) Borrowings ii) Trade Payables - Due to Micro and Small Enterprises - Due to Others iii) Other financial liabilities b) Other Current Liabilities c) Provisions	37,219 7 235 184 427 5,119 50 4,742 854 2,525 1,775	37,452 - 8 8 113 - 121 4,051 21 3,926 956 2,598 2,105

For and on behalf of the Board of Directors Kewalchand P. Jain Chairman & Managing Director

DIN: 00029730

Place : Mumbai

Date : 28" July. 2017



K-LOUNGE.COM



सचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, प्र.का., 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 दूरभाष: 011-23311452

ई-मेलः itdhw@pnb.co.in

निविदा सूचना

पंजाब नैशनल बैंक पात्र बोलीदाताओं से "मिड टिएर यूनिफाईड स्टोरेज सोल्युशन की आपूर्ति, स्थापना और कमीशन के लिए" ऑनलाईन बोली (तकनीकी तथा वाणिज्यिक दोनों) आमंत्रित करता है।

इच्छक बोलीदाता विस्तत आरएफपी दस्तावेज हमारी ई-पोक्योरमैंट वैबसाइट https://pnbindia.biz अथवा www.nnhindia in से डाऊनलोड कर सकते हैं । बिड हमारे - ई-पोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से डिजिटल प्रमाणपत्र (हस्ताक्षर और कटलेखन दोनों) का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन जमा कराना अपेक्षित है । ऑनलाइन बिंड तैयार करने और हैश जमा करने की अंतिम तिथि 21-08-2017 को 16:00 बजे और बिड जमा करने की अंतिम तिथि 22-08-2017 को 14.00 बजे तक है।

सहायक महाप्रबंधक

punjab national bank

पंजाब नैश्नुल बैंक 🕒 punjabnational bank

सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, प्र. का. 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 (ई-मेल : itdhw@pnb.co.in, दूरभाष : 011-23311452

निविदा सुचना

पंजाब नैशनल बैंक पात्र बोलीदाताओं से "2 वर्ष की अवधि के लिए सरक्षा एंटीग्रेटर की सेवाएँ" हेतु ऑनलाइन बोली (तकनीकी एवं वाणिज्यिक दोनों) आर्मेंत्रित करता है। इच्छक बोलीदाता विस्तत निवेदन प्रस्ताव दस्तावेज हमारी ई-प्रोक्योरमेंट वैबसाइट https://pnbindia.biz अथवा www.pnbindia.in से डाऊनलोड कर सकते हैं। बिड को हमारे ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से डिजिटल प्रमाणपत्र (हस्ताक्षर और कूट लेखन दोनों) का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। ऑनलाइन बिड तैयार करने और हैश जमा करने की अंतिम तिथि 10.08.2017 को 1600 बजे तक और बिड जमा करने की अंतिम तिथि 11.08.2017 को 1400 बजे तक है।

सहायक महाप्रबंधक

PPAP AUTOMOTIVE LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC073281 istered Office: 54, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020 Corporate Office: B-206A, Sector-81, Phase-II, Noida-201305 (U.P.) Website: www.ppapco.in; E-mail ID: investorservice@ppapco.com

Tel: +91-120-2462552 / 53 Fax: +91-1202461371 NOTICE

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of PPAP Automotive Limited ("the Company") will be held on Wednesday, the 23rd day of August, 2017 at 10:30 a.m. at Sri Sathya Sai International Centre, Pragati Vihar, Lodhi Road, New Delhi-110003 to transact the business set out in the Notice convening the 22nd AGM.

The Notice setting out the ordinary and special business proposed to be transacted at the meeting has been sent to the members by post or email as the case may be. In terms of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules made thereunder, the Company has completed the dispatch of Notice of AGM on 29th July, 2017.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 17th August, 2017 to Tuesday, 22nd August, 2017 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and payment of dividend

The Annual Report and Notice of AGM can also be accessed from the website of the Company at www.ppapco.in. Members, who wish to receive physical copies of the Annual Report and Notice may write to the Company at the Registered Office or send an email at investorservice@ppapco.com

The Company is pleased to provide its members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited. Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the e-voting period commences on Saturday, 19th August, 2017 at 10.00 a.m. and ends on Tuesday, 22nd August, 2017 at 05.00 p.m. The e-voting module shall be disabled for voting after 05:00 p.m. on Tuesday, 22nd August, 2017. Once the vote on a resolution is cast by the members though electronically, the members shall not be allowed to change it subsequently.

For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the Notice of AGM. In case of any queries or grievances pertaining to the e-voting procedure, Members may get in touch with the following:

Central Depository Services (India) Limited 16 th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001	Link Intime India Private Limited 44, Community Centre, 2 nd Floor, Naraina Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110028	PPAP Automotive Limited 54, Okhla Industrial Esate, Phase-III, New Delhi-110020				
Email id: helpdesk. evoting@cdslindia.com	Email id: delhi@ linkintime.co.in	Email id: investorservice@ ppapco.com				
For PPAP Automotive Limited						
		Sd/				

Date: 29th July, 2017

Company Secretary

मुंजाल शोवा लिमिटेड

सीआईएनः L34101HR1985PLC020934

पंजीकत कार्यालय एवं वर्क्स: 9-11. मारुति इंडस्टियल एरिया. गरुग्राम-122015 (हरियाणा) फोन: +91-124-4783000: फैक्स: +91-124-2341359 ई-मेलः cs@munjalshowa.net; वेबसाईटः http://www.munjalshowa.net

वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग जानकारी, एवं पस्तक बंदी की सचना एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मुंजाल शोवा लिमिटेड की 32वीं वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम' बृहस्पतिवार, 24 अगस्त 2017 को 11:00 बजे पूर्वाहन कम्पनी के 9-11, मारूति इंडस्ट्रीयल एरिया, सेक्टर-18, गुरूग्राम - 122015 स्थित पंजीकृत कार्यालय में एजीएम की सूचना दिनांकित 19 मई 2017 में निहित व्यवसायों के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

कम्पनी ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेत् वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना तथा रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया के साथ 29 जुलाई 2017 को सभी सदस्यों को

(क) उनके पंजीकृत पते पर अनुमत माध्यम द्वारा तथा

(ख) जिनका ई-मेल पता डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के साथ पंजीकृत है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वरा प्रेषित किए जा चके हैं।

उपरोक्त दस्तावेज़, आपके संदर्भ हेतु, कम्पनी की वेबसाईट www.munjalshowa.net पर भी

कम्पनी अधिनियम. २०१३ की धारा १०८ के प्रावधानों के अनुपालन में तथा अन्य प्रावधानों, यदि हो के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन एवं संचालन) नियम, 2014 के नियम 20 जैसा कि कम्पनी (प्रबन्धन एवं संचालन) संशोधन नियम 2015 द्वारा संशोधित है एवं सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली. २०१५ के अनुपालन में कम्पनी सहर्ष कट-ऑफ तिथि (१७ अगस्त २०१७) को अपने सदस्यों को कथित एजीएम की सचना में निहित सभी प्रस्तावों पर इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) के रिमोट ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म के माध्यम से. प्रदान कर रही है।

pंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमावली, 2015 के नियम 42 के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों के रिजस्टर तथा शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शनिवार, 12 अगस्त 2017 से बृहस्पतिवार, 24 अगस्त 2017 (दोनों दिन शामिल) तक, 32वें एजीएम के प्रयोजन एवं वित्तीय वर्ष 2016—17 के लाभांश (यदि घोषित होता है तो) हेत सदस्यों की पात्रता के निर्धारण करने के उद्देश्य से, बंद रहेंगी। अंतिम लाभांश का भगतान उन सदस्यों / लाभभोगी स्वामियों को किया जाएगा जिनके नाम, शुक्रवार, 11 अगस्त 2017 को व्यावसायिक pार्यकाल के समापन पर, सदस्यों / डिपॉजिटरी के रजिस्टर के रिकॉर्डस में दर्शित हो। सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि :

- एजीएम सूचना में निहित व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान भी किया ज
- रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 21 अगस्त 2017 को पूर्वाह्न 9:00 बजे आरम्भ होगी और बुधवार, 23 अगस्त 2017 को संध्या 5:00 बजे समाप्त होगी।
- इलेक्ट्रानिक माध्यम तथा एजीएम में वोट करने हेतु पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ
- (iv) वे सदस्य जिन्होंने शेयरों का अधिग्रहण वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण के पश्चात् तथा ∕ अथवा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 17 अगस्त 2017 के पूर्व किया है, cs@munjalshowa.net पर एक अनुरोध भेजकर यूजर आईडी एव पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें किः (क) रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति बुधवार, 23 अगस्त 2017 को संध्या
- 5:00 बजे के पश्चात नहीं होगी। प्रस्ताव पर एक वार वोट करने के पश्चात सदस्यों को उन्हें बदलने की अनुमति नहीं होगी। (ख) मतपत्र द्वारा भी मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी, एवं एजीएम में उपस्थित वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान न किया हो वे एजीएम में अपने अधिकार का उपयोग कर मतदान कर सकते हैं। (ग) वे सदस्य जिन्होंने अपना मतदान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से कर लिया हो वे एजीएम में उपस्थित रह सकते है परन्त उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। (घ) मात्र वे सदस्य जिनका नाम रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा अनुरक्षित सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि अर्थात् 17 अगस्त 2017 को दर्शित हो, रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में बैलट / वोटिंग पेपर के माध्यम से वोट करने की सविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
- एजीएम की सचना कम्पनी के वेबसाईटः www.munialshowa.net तथा सीडीएसएल की वेबसाईट https://www.cdslindia.com पर प्रदर्शित है।
- (vii) ई-वोटिंग संबंधित किसी भी प्रश्न हेतु कृपया 18002005533 पर फोन करें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें अथवा श्री राकेश दलवी, उप-प्रबन्धक . सेन्ट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ लिमिटेड, फिरोज़ जीजीभॉय टावर्स, 16वीं मंजिल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मम्बई - ४००००१ को लिखें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार (सौरम अग्रवाल) कम्पनी सचिव

स्वतंत्रता दिवस के भाषण में नौकरशाही में बदलाव पर होगा जोर!

अरूप रॉयचौधरी और संजीव मखर्जी

नई दिल्ली, 30 जुलाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अपने चौथे भाषण में बडे पैमाने पर नौकरशाही में सुधार और वित्त वर्ष में बदलाव का उल्लेख कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होने वाले भाषण में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख होता है, साथ ही इसमें भविष्य की योजनाएं भी बताई जाती हैं। उदाहरण के लिए मोदी ने अपने पिछले भाषणों में ग्रामीण विद्युतीकरण और सस्ते मकान की योजनाओं का उल्लेख किया था। यह साल भी कुछ अलग रहने की संभावना नहीं है।

उच्च पदस्थ सत्रों से बिजनेस स्टैंडर्ड को मिली जानकारी के का नौकरशाही में प्रवेश शामिल होगा। एक अधिकारी ने कहा, 'इस मोर्चे पर तमाम तरीकों पर विचार

मृताबिक नौकरशाही में सुधार मोदी के एजेंडे में अगली बडी बात होगी और इस दिशा में किए गए बदलाव, नियुक्तियां, कार्यकाल और इसके साथ ही प्रशासन का ढांचा तैयार करने में बाहरी लोगों किया गया। प्रधानमंत्री के भाषण को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, लेकिन इसमें सुधार की योजना का कुछ विस्तृत ब्योरा हो सकता है।' बड़ी संख्या में टेक्नोक्रेट को प्रवेश देने और नौकरशाहों के लिए

अप्रेजल व्यवस्था में वार्षिक

गोपनीय रिपोर्ट के अलावा छवि

को भी शामिल किए जाने की

संभावना है। इस तरह की व्यवस्था

लाल किले से

- स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले प्रधानमंत्री के भाषण में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख होता है, इसमें भविष्य की योजनाएं भी बताई जाती हैं
- नोटबंदी के बाद योजना के लाभ और सरकारी बैंकों के विलय की भी हो सकती है चर्चा

पदोन्नित से लेकर नियुक्ति तक हर जगह असर डाल सकती है। एक और योजनाबद्ध पहल

जिसे कुछ समय से जाना जा रहा है और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री

कर सकते हैं. वह है वित्तीय वर्ष को अप्रैल-मार्च से जनवरी से दिसंबर किया जाना। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि हालांकि

इसके लिए कोई तिथि घोषित किए

जाने की संभावना कम है, लेकिन वह इस कदम के लाभ गिना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद यह बडा आर्थिक सुधार होगा। प्रधानमंत्री कुछ अन्य मसलों पर भी बोल सकते हैं, जिनमें

नोटबंदी के बाद योजनाओं का लाभ दिया जाना और सरकारी बैंकों का योजनाबद्ध तरीके से विलय किया जाना शामिल है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कुछ दिन पहले औपचारिक रूप

सरकार जनवरी-दिसंबर वित्त वर्ष की योजना बना रही है। वित्त वर्ष में बदलाव को लेकर सरकार में कुछ मतभेद की आवाजें भी उठ रही हैं। जहां

से संसद में घोषणा की थी कि

जगह जनवरी-दिसंबर अवधि के लिए बजट 2018 की शुरुआत में पेश किया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य ने इस अखबार को बताया कि इस बदलाव से कम अवधि के लिए व्यवधान आएगा और संभव है कि वस्तु एवं सेवा कर लागु किए जाने तुरंत बाद इसे लाग न किया जाए और यह बदलाव 2019 के लिए हो। केंद्र सरकारक शंकर आचार्य समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है, जिसे इस तरह के किसी बदलाव को लागू करने के लिए अध्ययन का काम सौंपा गया था।

को बताया कि अप्रैल-मार्च की

भारत में 1867 से अप्रैल मार्च वित्त वर्ष अपनाया जा रहा है। 1867 के पहले भारत का वित्त वर्ष 1 मई से शुरू होकर अगले साल अधिकारियों ने बिजनेस स्टैंडर्ड के 30 अप्रैल तक चलता था।

निर्यात मानकों में राहत

नई दिल्ली, 30 जुलाई

एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद प्रक्रियागत झमेलों में अटके निर्यात को सुचारु करने के लिए सरकार ने नया कदम उठाया है, जिसमें उसने ड्रॉबैक के लिए मुद्रा विनिमय दरों के संबंध में एक

इसके लिए वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले सीमा शुल्क विभाग ने 27 जुलाई को अधिसूचना संख्या 32/2017 जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सीमा शुल्क विभाग हर पखवाड़े मुद्रा विनिमय दरों की घोषणा करेगा। पहले भी ऐसा ही होता था।

और अधिसुचना जारी की है।

ईवाई के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि सीमा शुल्क का भगतान सिर्फ भारतीय रुपये में होता है और कारोबारियों के लिए जीएसटी के नियमों में कहा गया था कि विदेशी मुद्रा का अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक की विनिमय दर के अनुसार ही होगा, जिसे रोजाना बदला जाता है। कारोबारियों की शिकायत थी कि इससे भारी मात्रा में भुगतान निपटाना मुश्किल हो जाएगा। जैन ने बताया कि अब कारोबारी विनिमय की उस दर के आधार पर रुपये की कीमत के हिसाब से भुगतान कर सकेंगे. जो दर सीमा शल्क डॉबैक के मकसद से तय करता है। सेवा निर्यात के लिए व्यापक तौर पर स्वीकार्य किसी भी लेखा पद्धति का इस्तेमाल किया जा सकेगा।



जीएसटी के बाद स्थिति साफ की

- सीमा शुल्क विभाग ने ड्रॉबैक और एसईजेड में आपूर्ति नियमों के लिए विनिमय दरों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया
- ज्यादा ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए स्व प्रमाणन को अनुमति

 छोटे और मझोले कारोबारियों को इससे ज्यादा दिक्कत हो रही थी

 ताजा कदम से निर्यातकों को लेनदेन में कम वक्त लगने और खर्च भी घटने की उम्मीद

अधिसूचना में ज्यादा ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए स्व प्रमाणन को अनुमति दी गई है। भारतीय निर्यात महासंघ (फियो) के अध्यक्ष गणेश कुमार गुप्ता ने कहा, 'निर्यातक से कर अधिकारियों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था. जिसमें लिखा जाना था कि यदि निर्यातक अधिक ड्युटी ड्रॉबैक का दावा करता है तो वह नई जीएसटी प्रणाली के तहत लाभ नहीं मांग पाएगा। इससे बहुत मश्कल हो रही थी।' कर अधिकारी ऐसे प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे थे और इसके नहीं होने पर कम डाँबैक मिलता जाती थी। छोटे और मझोले कारोबारियों को इससे ज्यादा दिक्कत हो रही थी और निर्यातक को भी प्रशासनिक कार्य में उलझना पडता था।

सेवा निर्यातकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। पहले किसी पत्र को दाखिल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब ऐसा करना अनिवार्य कर दिया गया है। फियो ने वित्तमंत्रालय से कहा है. 'निर्यातक निर्यात को लेकर सुस्ती दिखा रहे हैं क्योंकि जीसटी अधिकारियों से प्रमाणपत्र लेन में लेनदेन का वक्त था, जिससे नकदी की किल्लत हो और लागत में इजाफे के अलावा है, जो बड़ी संख्या में हैं।

सरकार के ताजा कदम से निर्यातकों को लेनदेन में कम वक्त लगने और खर्च भी घटने की उम्मीद है। लेकिन निर्यातकों को सलाह दी गई है कि ड्रॉबैक का दावा करते समय भी वे खुद गणित लगा लें क्योंकि उन्हें आईजीएसटी रिफंड या आईटीसी रिफंड या सेनवैट क्रेडिट से हाथ धोना पडेगा। अधिसुचना में यह भी साफ किया गया है कि जब एसईजेड के लिए निर्यात के उद्देश्य से या किसी और मकसद से आपूर्ति की जाती है तो कारोबारियों को बताना पडेगा कि ऐसा एलयूटी (लेटर आफ अंडरटेकिंग) के तहत किया गया या बॉन्ड के तहत।

जीएसटी लाग किए जाने के बाद निर्यातकों ने निर्यात की खेपों को हरी झंडी देने के लिए बॉन्ड या एलयूटी जमा करने से जुड़े नियमों पर स्पष्टता नहीं होने की शिकायत की थी। उन्होंने आईजीएसटी से छूट भी मांगी थी। किंतु सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में कहा था कि आईजीएसटी से छट के लिए अच्छे रिकॉर्ड वाले बडे निर्यातक सीमा शुल्क विभाग को एलयुटी दे सकते हैं और छोटे निर्यातकों को बॉन्ड देना पडेगा। मगर अभी दिक्कत जारी है। सरकार ने कहा है कि जिन निवेशकों की पिछले वित्त वर्ष की विदेशी मुद्रा आवक 1 करेडि रुपये से अधिक हो रही है, उन्हें एलयूटी देना होगा। जैन ने कहा कि इस मामले में एसएमई

प्रतिशत इलाकों में बिजली कट गई थी और यह नीति निर्माताओं. बिजली व्यवस्था के संचालकों और नियामकों के लिए चेतावनी थी। पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (पीजीसीआईएल) और पॉवर कंपनी ऑपरेशंस (पीओएसओसीओ) को बिजली पारेषण व प्रबंधन व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके लिए एक माह से एक साल तक की समयसीमा थी। पीजीसीआईएल का दावा है कि उसने 98 प्रतिशत सिफारिशों को लागू कर दिया है और शेष दीर्घावधि योजनाएं जल्द पूरी हो जाएंगी। 2012 में ज्यादा मांग की वजह से ओवरलोडिंग और उत्तर प्रदेश

द्वारा तय सीमा से ज्यादा बिजली लेने के कारण ग्रिड फेल हुआ और पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ समेत 8 से ज्यादा राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इसका असर पश्चिमी और पूर्वी ग्रिड पर भी पड़ा। दक्षिणी ग्रिड बाद में जुडा, इसलिए वह संकट के समय सुरक्षित था, इसके बावजूद 60 करोड़ लोग अंधेरे में चले गए। इससे रेल सेवाएं बुरी तरह

प्रभावित हुईं और उत्तर भारत के तमाम इलाकों में यात्री विभिन्न स्टेशनों पर फंसे रहे। जलापूर्ति बाधित रही। स्कूली बच्चों ने छुट्टी मनाई, वहीं व्यावसायिक केंद्र, कारोबारी, गृहिणियों के लिए यह मसीबत थी। वैश्विक अखबारों ने भारत की बिजली व्यवस्था की दुर्दशा को पहले पन्ने पर जगह दी। पुरी दुनिया का मीडिया इस खबर को एक हफ्ते तक दिखाता रहा, जिसे भारत के बिजली क्षेत्र के लिए शर्मनाक दिन के रूप में पेश किया गया। 30 जुलाई को शुरुआती रूप से बिजली व्यवस्था बहाल किए जाने के बाद अगले दिन फिर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। खराब मॉनसून की वजह से किसान भी सिंचाई के लिए पंप चला रहे थे, और शहरी केंद्रों पर भी मांग

क्या भारतीय ग्रिड दबाव झेलने को हैं तैयार ? प्रदेश में करीब 48,000 मेगावॉट

बिजली का लोड दो दिन की ग्रिड

श्रेया जर नई दिल्ली, 30 जुलाई

बाधा में प्रभावित हुआ था। मॉनसून कमजोर होने की वजह से बहरहाल उस समय के बिजली 2012 के जुलाई महीने में तिपश मंत्री सुशील शिंदे को गृह मंत्रालय ज्यादा थी. लेकिन माह की 30 और भेजा गया और वीरप्पा मोइली ने 1 31 तारीख इतिहास में इसलिए दर्ज अगस्त 2012 को कार्यभार संभाला। हो गई थी, क्योंकि वे देश के लिए मोइली और शिंदे दोनों की केंद्र पर सबसे अंधेरे दिन थे। भारत के 70 लग रहे आरोपों को खारिज करते रहे। दोनों मंत्रियों ने उन खास राज्यों की आलोचना की, जिनकी वजह से ग्रिड ध्वस्त हुआ था। बिजली क्षेत्र से जुड़े सभी विभागों ने बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए लगातार काम किया और ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए काम किया गया। मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन

> किया गया। सुरक्षा की समीक्षा, निगरानी और पारेषण व्यवस्था की बिजली स्थानांतरण क्षमता, ग्रिड एवं पावर नेटवर्क को मजबूत करना, अंतर राज्यीय बिजली स्थानांतरण क्षमता का विस्तार और बिजली की मांग एवं आपूर्ति की शेड्यलिंग प्रमुख सिफारिशें थीं। पीओएसओसीओ ने अपने नए अवतार में दावा किया कि वह ग्रिड के माध्यम से गुजरने वाली बिजली की प्रत्येक यूनिट पर नजर रख रही है। इसे दुरुस्त करने से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि शेड्यलिंग

> > पीओएसओसीओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'सभी क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर किसी तरह के लोग को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और तात्कालिक व्यवस्था के मुताबिक ऐसा कर सकते हैं। यह योजना पुरी तरह से दरुस्त है।' पीओएसओसीओ ने आपातकालीन लोड शेडिंग प्रोटोकॉल भी तैयार किया है, जिससे किसी ऐसी स्थिति का प्रबंधन किया जा सके। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने यह लक्ष्य हासिल कर लिया है।

की व्यवस्था कठोर है और इसका

उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा।

पीजीसीआईएल के पूर्व सीएमडी आरएन नायक (2011-15) कभी इस तरह की आपात स्थिति की संभावना से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा, 'जब तक योजनाबद्ध तरीके से नुकसान न पहुंचाया जाए, बड़े पैमाने पर ऐसी कटौती होना असंभव है।' पारेषण नेटवर्क के विस्तार, अतिरिक्त लाइनों, ग्रिड अनुशासन और इंटर स्टेट कनेक्शन इस अवधि के दौरान पीजीसीआईएल ने हासिल कर ली है। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कई बार इस तरह के ब्लैक आउट की किसी संभावना से इनकार

रेल कंपनियों को छोटे शहरों में मिला कारोबार

मेघा मनचंदा

नई दिल्ली, 30 जुलाई

जयपुर, लखनऊ और कोच्चि जैसे शहरों में तेज रफ्तार वाले सार्वजनिक परिवहन के जगह बनाने से एल्सटम, बंबार्डियर और हंडई रोटेम जैसी कंपनियों के अवसर बढ़े हैं। रोलिंग स्टॉक, सिगनल व्यवस्था, बिजली व्यवस्था के मिल रहे ठेकों से इन कंपनियों को मदद मिली है, जिससे विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की संभावना बढी है। अब मध्य प्रदेश के दो शहरों इंदौर और भोपाल में मेट्रो सेवाओं का खाका तैयार है। कुल मिलाकर सरकार ने मझोले आकार के करीब 50 शहरों और कस्बों को चुना है, जहां आधुनिक मेट्रो व्यवस्था बनाई जा सकती है और इसकी वजह से कंपनियों के लिए कारोबार की उम्मीद है कि इंदौर मेट्रो

परियोजना पर 7,522.63 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) से वित्तीय सहयोग भी मिलेगा। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना पर अनुमानित रूप से 6,962.92 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है और इसके लिए युरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) वित्तपोषण करेगा।

भारत में अगले 3 से 5 साल में मेटो रेल पर अनमानित रूप से 2.3 लाख करोड़ रुपये खर्च आने की संभावना है। इस समय 350 किलोमीटर मार्ग के नेटवर्क पर परिचालन हो रहा है। इसके लिए जरूरी यात्रियों की संक्या पहले ही हासिल कर ली गई है और आने

वाले वर्षों में इसमें बढ़ोतरी की संभावना है। क्रिसिल इन्फ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी के प्रैक्टिस लीडर और निदेशक जगन नारायण पद्मनाभन रेल कोच, रोलिंग स्टॉक, सिगनलिंग और बिजली के अन्य सामान की लागत मेटो परियोजना पर आने वाली कुल लागत का 50 से 60 प्रतिशत होता है और इसकी वजह से न उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं के लिए जबरदस्त संभावनाएं हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में कोच्चि मेटो सेवा का उदघाटन किया। मेट्रो परियोजना की अनुमानित लागत 5,181.79 करोड़ रुपये है और 22 स्टेशनों के साथ रेल लाइन की कुल लंबाई 25.612 किलोमीटर है। कोच्चि मेट्टो के लिए सिगनलिंग, टेलीकॉम और विद्युतीकरण सॉल्यूशंस एल्सटम मुहैया कराएगी। कंपनी के लिए


डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, आपूर्ति, इंस्टालेशन, परीक्षण और रेडियो संचार सेवा आधारित ट्रेन कंटोल (सीबीटीसी), सिगनलिंग सॉल्यशं और 25 ट्रेनों के लिए ऑनबोर्ड उपकरणों की आपूर्ति के क्षेत्र में संभावनाएं हैं। यह इंटीग्रेटेड टेलीकॉम सॉल्युशंस जिसमें रेडियो, मास्टर क्लॉक, सीसीटीवी, पैसेंजर इन्फार्मेशन डिस्प्ले सिस्टम, पैसेंजर एनाउंसमेंट सिस्टम और गीगा बिट नेटवर्क उपलब्ध कराएगी।

इक्रा ने हाल की रिपोर्ट में कहा है कि मेट्रो रेल क्षेत्र में पिछले 2 साल से बेहतर कारोबार हुआ है और इसमें निर्माण कंपनियों के लिए अगले 3 से 5 साल के बीच बड़े पैमाने पर अवसर हैं क्योंकि अभी बड़ी संख्या में परियोजनाएं कतार में हैं, जो मंजूरी के इंतजार में या योजना स्तर पर हैं।

बढ़ने से 38,000 मेगावॉट तक मांग पहुंच गई थी। देश में बिजली की कुल मांग 1,10,000 मेगावॉट थी। देश के 21 राज्यों व एक केंद्रशासित किया है।

बीएस सूडोकू 2881

परिणाम संख्या 2880



	7	9	6	8	1	4	3	2	5
	5	4	1	6	3	2	7	9	8
	2	3	8	7	5	9	4	6	1
	4	6	3	5	8	1	ø	7	2
	1	7	9	3	2	6	5	8	4
	8	2	5	თ	4	7	1	3	6
	9	5	7	1	6	8	2	4	3
	3	8	4	2	9	5	6	1	7
	6	1	2	4	7	3	8	5	9
कैसे खेलें? बहुत मश्कि									
क्स खल? बहुत मुश्कि									

हर रो. कॉलम और

3 बाई 3 के बॉक्स

में एक से लेकर नौ

तक की संख्या भरें।

जीएसटी में सभी राज्य हिस्सेदार'

नई दिल्ली, 30 जुलाई

भाषा

वस्त एवं सेवा कर (जीएसटी) लाग् होने के करीब एक महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को बदल दिया है और यह सहकारी संघवाद का एक उदाहरण है जहां नई परोक्ष कर प्रणाली से जुड़े सभी फैसलों में राज्य साझेदार हैं।

मोदी ने कहा कि इतने देश में इतने बड़े मानदंड पर इतना बड़ा परिवर्तन और इतने करोड़ों लोगों की सहभागिता के साथ इतने विशाल देश में उसे लागू करना और सफलतापूर्वक आगे बढ़ना, यह

बहुत बड़ी ऊंचाई है। यह दुनिया भर में विश्वविद्यालयों के लिए केस स्टडी बन सकती है। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लागू करते समय सरकार की प्राथमिकता है कि गरीब आदमी की थाली पर बोझ नहीं पडना चाहिए। आकाशवाणी पर अपने 'मन की

अपने–आप में सफलता की एक

बात' रेडियो कार्यक्रम में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के हालात जैसे अन्य कई विषयों की भी बात की और स्वतंत्रता दिवस से पहले देश के स्वतंत्रता आंदोलन का भी उल्लेख किया।

आधे घंटे के प्रसारण में फायदे दिखने लगे हैं।

के गरीब लोगों द्वारा बनाई जाने वाली पर्यावरण अनुकल सामग्री के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने गत दिनों महिला विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन की भी तारीफ की।

प्रधानमंत्री ने त्योहारों के समय देश

गत एक जुलाई को देश में लागू हुई जीएसटी व्यवस्था का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा, 'एक देश-एक कर। कितना बड़ा सपना पूरा हुआ है।'जीएसटी को एक कर सुधार से भी अधिक बताते हुए उन्होंने कहा कि यह नई संस्कृति लाने वाला है। उन्होंने कहा, 'जीएसटी लागू हुए करीब एक महीना हुआ है और उसके

तिथि : 29 जुलाई 2017

एसीएस 36163